



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 333 राँची, सोमवार, 2 अप्रैल, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

6 मार्च, 2018 ई०

संख्या- 16/नि०-07/2017-1317-- झारखण्ड पुलिस अंतर्गत विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में प्रावधानित चिकित्सीय परीक्षण में "Apex Medical Board" का गठन किया गया था । स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरांत अधिसूचना सं०-6004, दिनांक 8 नवम्बर, 2017 की कंडिका-05 में निहित प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है:-

“कंडिका-05, अधिसूचना सं०-6992, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014, अधिसूचना सं०-1642, दिनांक 17 मार्च, 2016, अधिसूचना सं०-1262, दिनांक 8 मार्च, 2016, अधिसूचना सं०-3875, दिनांक 14 जुलाई, 2016, अधिसूचना सं०-1641, दिनांक 17 मार्च, 2016, अधिसूचना सं०-3453, दिनांक

14 जून, 2016 एवं अधिसूचना सं०-3796, दिनांक 12 जुलाई, 2017 में प्रावधानित लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्वद द्वारा किया जायेगा। उक्त चिकित्सा पर्वद द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए "Apex Medical Board" अधीक्षक, राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान, रांची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्व, झारखण्ड, रांची होगा। चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में "Apex Medical Board" का निर्णय अंतिम होगा।"

2. उपरोक्त सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित होंगे।

3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,

सरकार के विशेष सचिव।
